

समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 240

## कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

## सामान्य :

- यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- प्रश्नपत्र का कोड (CODE) इस पृष्ठ के ऊपरी बायें कोनों और इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ के दायें कोनों पर छपा है।
- प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- ओ.आर.एस. कोड इसके बायें तथा दायें भाग में छपे हुए हैं। सुनिश्चित करें कि यह दोनों कोड समरूप हैं तथा यह कोड तथा प्रश्नपत्र पुस्तिका पर छपा कोड समान है। यदि नहीं, तो निरीक्षक को सम्पर्क करें।
- कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम तथा रोल नम्बर लिखिए।
- इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और सभी 60 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं।

## प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

- इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। हर भाग में तीन खंड हैं।
- प्रत्येक खंड के प्रारंभ में दिये हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- खंड 1 में 8 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।  
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- खंड 2 में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।  
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -2 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- खंड 3 में 2 “अनुच्छेद” प्रारूप प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद एक प्रयोग, एक दशा अथवा एक समस्या को दर्शाता है।  
इस अनुच्छेद पर दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायें। एक या एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।  
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -2 अन्य सभी अवस्थाओं में।

## ऑप्टिकल रिस्पांस शीट :

- एक ओ.आर.एस. में एक मूल (ऊपरी पृष्ठ) और उसकी कार्बन-रहित प्रति (नीचे पृष्ठ) है।
- ऊपरी मूल पृष्ठ के अनुरूप बुलबुलों (BUBBLES) को पर्याप्त दबाव डालकर काला करें। यह कार्बन-रहित निचले पृष्ठ के अनुरूप स्थान पर चिह्नित करेगा।
- मूल पृष्ठ मशीन-जाँच्य है तथा यह परीक्षा के समाप्ति पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जायेगा।
- परीक्षा के समाप्ति पर आपको कार्बन-रहित पृष्ठ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ओ.आर.एस. को हेर-फेर/विकृति न करें।
- अपना नाम, रोल न. और परीक्षा केंद्र का नाम मूल पृष्ठ में दिए गए खानों में कलम से भरें और अपने हस्ताक्षर करें।  
इनमें से कोई भी जानकारी कहीं और न लिखें। रोल नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुलों को काला करें।

कृपया शेष निर्देशों के लिये इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

2018 के

अंकन योजना के अनुदेशों के बिना निरीक्षक के

SPACE FOR ROUGH WORK

$$2^2 \frac{0.65}{J}$$

$$2^2 \frac{0.65}{J} 22$$

$$2 \sqrt{0.658}$$

$$0.65322A$$

$$\text{d}^2 \frac{0.653}{2}$$

# गणित : भौतिक विज्ञान

## खंड 1 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक, दोनों शामिल, के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है
  - प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें
  - अंकन योजना :
- +4 यदि उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया जाय  
0 अन्य सभी अवस्थाओं में

Q.1  $R$  त्रिज्या के दो ठोस गोलों  $A$  और  $B$  के घनत्वों का त्रिज्य दूरी  $r$  के साथ संबंध क्रमशः  $\rho_A(r) = k \left( \frac{r}{R} \right)$  तथा

$\rho_B(r) = k \left( \frac{r}{R} \right)^5$  हैं, जहाँ  $k$  एक स्थिरांक है। गोलों के अपने-अपने केन्द्र से होकर जाने वाली अक्षों के परितः जड़त्वाधर्ष

क्रमशः  $I_A$  तथा  $I_B$  हैं। यदि  $\frac{I_B}{I_A} = \frac{n}{10}$  है, तब  $n$  का मान है

Q.2 बराबर आवृत्तियों तथा तीव्रता  $I_0$  की चार आवर्त तरंगों की कला के कोण  $0, \pi/3, 2\pi/3$  तथा  $\pi$  हैं। जब इन तरंगों को अध्यारोपित सुपरपोस (superpose) किया जाता है तो परिणामी तीव्रता  $nI_0$  है। तब  $n$  का मान है

Q.3 एक रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता  $A$  एवं सक्रियता परिवर्तन की दर  $R$  क्रमशः  $A = -\frac{dN}{dt}$  तथा  $R = -\frac{dA}{dt}$  संबंधों द्वारा परिभाषित की जाती है, जहाँ समय  $t$  पर नाभिकों की संख्या  $N(t)$  है। दो रेडियोधर्मी स्रोत  $P$  (औसत आयु  $\tau$ ) तथा  $Q$  (औसत आयु  $2\tau$ ) की समय  $t = 0$  पर समान सक्रियता है। उनकी सक्रियता परिवर्तन की दरें समय  $t = 2\tau$  पर क्रमशः  $R_P$  तथा  $R_Q$  हैं।

यदि  $\frac{R_P}{R_Q} = \frac{n}{e}$ , तब  $n$  का मान है

6

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$$R^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{r}{R} \right)^2$$

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{N_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$A = -\frac{dN}{dt} = \frac{N_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$0.633$$

$$R^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{r}{R} \right)^2$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$


$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$R^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{r}{R} \right)^2$$


$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$0.633$$



- Q.4 एकवर्णी प्रकाश का एक पुंज एक  $n$  अपवर्तनांक वाले समबाहु प्रिज्म के एक फ्लक पर  $60^\circ$  के कोण पर आपतित होता है तथा सामने वाले फ्लक से लंब से  $\theta(n)$  कोण बनाते हुए निकलता है (चित्र देखें)।  $n = \sqrt{3}$  पर  $\theta$  का मान  $60^\circ$  है तथा  $\frac{d\theta}{dn} = m$  है। तब  $m$  का मान है



- Q.5 नीचे दिये गये परिपथ में प्रतिरोध  $R (= 2\Omega)$  में  $I$  एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तब  $I$  का मान है




कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान



$$\frac{2+1}{6} \times \frac{1}{2}$$

Q.6 Li<sup>2+</sup> आयन की उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग  $3\hbar/2\pi$  है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य  $p\pi a_0$  (जहाँ  $a_0$  बोर त्रिज्या है) है। तब  $p$  का मान है

Q.7 एक बड़ा गोलाकार द्रव्यमान  $M$  एक जगह स्थित है तथा दो एकरूप बिंदु द्रव्यमान  $m$  द्रव्यमान  $M$  के केन्द्र से होकर जाने वाली रेखा पर रखे गये हैं (चित्र देखें)। बिंदु द्रव्यमान एक  $l$  लंबाई के द्रव्यमान रहित दृढ़ छड़ से जुड़े हैं तथा यह संयोजन उनको जोड़ने वाली रेखा पर गति कर सकता है। सभी द्रव्यमानों में केवल उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है। जब  $M$  के निकट वाला बिंदु द्रव्यमान  $M$  से  $r = 3l$  की दूरी पर है तब  $m = k \left( \frac{M}{288} \right)$  के लिए छड़ में तनाव शून्य है। तब  $k$  का मान है



Q.8 एक निकाय की समय  $t$  पर ऊर्जा  $E(t) = A^2 \exp(-\alpha t)$  फलन द्वारा दी जाती है, जहाँ  $\alpha = 0.2 \text{ s}^{-1}$  है।  $A$  के मापन में 1.25% की प्रतिशत त्रुटि है। यदि समय के मापन में 1.50% की त्रुटि है तब  $t = 5 \text{ s}$  पर  $E(t)$  के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी


कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$\frac{dE}{dt} = -\alpha A^2 \exp(-\alpha t)$   
 $\text{मापन में } 1.25\% \text{ की त्रुटि}$   
 $\text{मापन में } 1.50\% \text{ की त्रुटि}$   
 $\frac{dE}{dt} = -\alpha A^2 \exp(-\alpha t)$   
 $\text{प्रतिशत त्रुटि} = \frac{\Delta E/E}{\Delta t/t} = \frac{1.25/1.50}{1.50/5} = 13.33\%$   
 $\text{प्रतिशत त्रुटि} = 13.33\%$   
 $\text{प्रतिशत त्रुटि} = 13.33\%$   
 $\text{प्रतिशत त्रुटि} = 13.33\%$   
 $\text{प्रतिशत त्रुटि} = 13.33\%$

## खंड 2 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
  - प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न में, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
  - अंकन योजना :
- +4 यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय  
 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो  
 -2 अन्य सभी अवस्थाओं में

Q.9 एक समांतर पटिका संधारित्र की पटिकाओं का क्षेत्रफल  $S$  तथा पटिकाओं के बीच में दूरी  $d$  है। तथा इसकी वायु में धारिता  $C_1$  है। जब पटिकाओं के मध्य दो अलग-अलग सापेक्ष परावैद्युतांकों ( $\epsilon_1 = 2$  तथा  $\epsilon_2 = 4$ ) के परावैद्युत पदार्थ दर्शाये चिन्नानुसार रखे जाते हैं तब इस प्रकार बने नये संधारित्र की धारिता  $C_2$  हो जाती है। तब अनुपात  $\frac{C_2}{C_1}$  है




~~1/1/1~~ 20  
 1/1/1.1 10  
 10

- 
- (A)  $6/5$  (B)  $5/3$  (C)  $7/5$  (D)  $7/3$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$\rightarrow$   $\frac{C_{1,2}}{d} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0}{d}$   $\rightarrow$   
 $\frac{C_{1,2}}{d} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0}{d} + \frac{\epsilon_2 \epsilon_0}{d}$   $\Rightarrow$   $\frac{C_{1,2}}{d} = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \epsilon_0}{d}$   $\Rightarrow$   $C_{1,2} = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \epsilon_0 d}{d}$

- Q.10 एक एक-परमाणुक आदर्श गैस एक क्षौतिज बर्तन (horizontal cylinder) में स्प्रिंग-युक्त पिस्टन द्वारा बंद है (दर्शाये चित्रानुसार)। प्रारंभ में गैस का तापमान  $T_1$ , दाब  $P_1$  तथा आयतन  $V_1$  है तथा स्प्रिंग विश्रांत अवस्था में है। अब गैस को बहुत धीरे-धीरे तापमान  $T_2$  तक गर्म करने पर दाब  $P_2$  तथा आयतन  $V_2$  हो जाता है। इस प्रक्रिया में पिस्टन  $x$  दूरी तय करता है। पिस्टन एवं बर्तन के मध्य घर्षण को नगण्य मानते हुए, सही कथन है (हैं)




- (A) यदि  $V_2 = 2V_1$  तथा  $T_2 = 3T_1$  है, तब स्प्रिंग में संचित ऊर्जा  $\frac{1}{4}P_1V_1$  है।
- (B) यदि  $V_2 = 2V_1$  तथा  $T_2 = 3T_1$  है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन  $3P_1V_1$  है।
- (C) यदि  $V_2 = 3V_1$  तथा  $T_2 = 4T_1$  है, तब गैस द्वारा किया गया कार्य  $\frac{7}{3}P_1V_1$  है।
- (D) यदि  $V_2 = 3V_1$  तथा  $T_2 = 4T_1$  है, तब गैस को दी गयी ऊर्जा  $\frac{17}{6}P_1V_1$  है।

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

Q.11 एक विखंडन प्रक्रिया  $^{236}_{92}\text{U} \rightarrow ^{140}_{54}\text{Xe} + ^{94}_{38}\text{Sr} + x + y$  दी गयी है, जहाँ  $x$  तथा  $y$  दो कण हैं।  $^{236}_{92}\text{U}$  विरामावस्था में है तथा उत्पादों की गतिज ऊर्जाएँ क्रमशः  $K_{\text{Xe}}$ ,  $K_{\text{Sr}}$ ,  $K_x$  (2 MeV) तथा  $K_y$  (2 MeV) से दर्शायी गयी हैं।  $^{236}_{92}\text{U}$ ,  $^{140}_{54}\text{Xe}$  तथा  $^{94}_{38}\text{Sr}$  की प्रति न्यूक्लिओन बंधन ऊर्जाओं को क्रमशः 7.5 MeV, 8.5 MeV तथा 8.5 MeV लें। विभिन्न संरक्षण नियमों का ध्यान रखते हुए सही विकल्प है (हैं)

- (A)  $x = n, y = n, K_{\text{Sr}} = 129 \text{ MeV}, K_{\text{Xe}} = 86 \text{ MeV}$   
 (B)  $x = p, y = e^-, K_{\text{Sr}} = 129 \text{ MeV}, K_{\text{Xe}} = 86 \text{ MeV}$   
 (C)  $x = p, y = n, K_{\text{Sr}} = 129 \text{ MeV}, K_{\text{Xe}} = 86 \text{ MeV}$   
 (D)  $x = n, y = n, K_{\text{Sr}} = 86 \text{ MeV}, K_{\text{Xe}} = 129 \text{ MeV}$

- Q.12 बराबर त्रिज्या वाले दो गोलों  $P$  तथा  $Q$  के घनत्व क्रमशः  $\rho_1$  तथा  $\rho_2$  हैं। गोलों को एक द्रव्यमान रहित डोरी से जोड़कर  $\sigma_1$  एवं  $\sigma_2$  घनत्व वाले तथा  $\eta_1$  एवं  $\eta_2$  श्यानता गुणाकों वाले द्रवों  $L_1$  एवं  $L_2$  में डाला जाता है। साम्यावस्था में गोला  $P$  द्रव  $L_1$  में तथा गोला  $Q$  द्रव  $L_2$  में तैरता है तथा डोरी तभी रहती है (चित्र देखें)। यदि गोले  $P$  को अलग से  $L_2$  में डालने पर उसका सीमांत वेग  $\vec{V}_P$  लहाना है और गोले  $Q$  का  $L_1$  में अलग से डालने पर सीमांत वेग  $\vec{V}_Q$  है, तब



$$\begin{aligned} \text{Ans} & \quad \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1 I d}{M_2 I d} \\ \eta_1^2 &= \frac{M_1^2}{\rho_1^2} = \frac{M_1^2}{(r^3)^2} = \frac{M_1^2}{r^6} \text{ cm}^{-2} \\ \eta_2^2 &= \frac{M_2^2}{\rho_2^2} = \frac{M_2^2}{(r^3)^2} = \frac{M_2^2}{r^6} \text{ cm}^{-2} \end{aligned}$$

- (A)  $\frac{|\vec{V}_P|}{|\vec{V}_Q|} = \frac{\eta_1}{\eta_2}$       (B)  $\frac{|\vec{V}_P|}{|\vec{V}_Q|} = \frac{\eta_2}{\eta_1}$       (C)  $\vec{V}_P \cdot \vec{V}_Q > 0$       (D)  $\vec{V}_P \cdot \vec{V}_Q < 0$

- Q.13 विभवान्तर  $V$ , विद्युत धारा  $I$ , परवैद्युतांक  $\epsilon_0$ , पारगम्यता  $\mu_0$  तथा प्रकाश की चाल  $c$  को मिलाकर विमीय रूप से सही विकल्प है (हैं)

- (A)  $\mu_0 I^2 = \epsilon_0 V^2$       (B)  $\epsilon_0 I = \mu_0 V$       (C)  $I = \epsilon_0 c V$       (D)  $\mu_0 c I = \epsilon_0 V$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

24/2

$$\mu_0 I^2 = \epsilon_0 V^2 \quad \text{①} \quad \text{परिवर्तन}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$


$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 V^2}{\mu_0} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन} \quad \text{परिवर्तन}$$

- Q.14 एक त्रिज्या  $R_1$  तथा एक समान आवेश घनत्व का गोलाकार आवेश मूल बिंदु O पर केन्द्रित है। इसमें एक  $R_2$  त्रिज्या तथा P पर केन्द्रित एक गोलाकार गुहिका (cavity), जहाँ  $OP = a = R_1 - R_2$  है, बनायी जाती है (चित्र देखें)। यदि गुहिका के अन्दर स्थिति  $\vec{r}$  पर विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}(\vec{r})$  है, तब सही कथन है (हैं)




- (A)  $\vec{E}$  एक समान है, इसका परिमाण  $R_2$  पर निर्भर नहीं करता है लेकिन इसकी दिशा  $\vec{r}$  पर निर्भर करती है।
- (B)  $\vec{E}$  एक समान है, इसका परिमाण  $R_2$  पर निर्भर करता है तथा इसकी दिशा  $\vec{r}$  पर निर्भर करती है।
- (C)  $\vec{E}$  एक समान है, इसका परिमाण  $a$  पर निर्भर नहीं करता है लेकिन इसकी दिशा  $\vec{a}$  पर निर्भर करती है।
- (D)  $\vec{E}$  एक समान है, एवं इसका परिमाण तथा दिशा दोनों  $\vec{a}$  पर निर्भर करते हैं।

---

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

Q.15 पदार्थ P तथा Q के प्रतिबल-विकृति (stress-strain) ग्राफ खींचने में एक छात्र गलती से  $y$ -अक्ष पर विकृति तथा  $x$ -अक्ष पर प्रतिबल दर्शाता है। तब सही कथन है (हैं)



- (A)   $P$  का तनन-सामर्थ्य (tensile strength)  $Q$  से अधिक है।
- (B)  पदार्थ  $P$  पदार्थ  $Q$  से अधिक तन्य (ductile) है।
- (C) पदार्थ  $P$  पदार्थ  $Q$  से अधिक भंगुर (brittle) है।
- (D)  पदार्थ  $P$  का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ  $Q$  के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है।

Q.16 एक एकसमान घनत्व के तरल के गोलाकार पिंड की त्रिज्या  $R$  है तथा यह अपने स्वयं के गुरुत्व के प्रभाव में साप्यावस्था में है। यदि इसके केन्द्र से दूरी  $r$  ( $r < R$ ) पर दाब  $P(r)$  है, तब सही विकल्प है (हैं)

- |   |   |
|---|---|
| (A) $P(r = 0) = 0$                                    | (B) $\frac{P(r = 3R/4)}{P(r = 2R/3)} = \frac{63}{80}$ |
| (C) $\frac{P(r = 3R/5)}{P(r = 2R/5)} = \frac{16}{21}$ | (D) $\frac{P(r = R/2)}{P(r = R/3)} = \frac{20}{27}$   |

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान


## खंड 3 (अधिकतम अंक : 16)

- इस खंड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
- अंकन योजना :
  - +4 यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
  - 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
  - 2 अन्य सभी अवस्थाओं में

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

## अनुच्छेद 1

दर्शये चित्रानुसार धातु की एक पतली आयताकार पट्टी में एक समान विद्युत धारा  $I$  धनात्मक  $x$ -दिशा में प्रवाहित हो रही है। पट्टी की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः  $l$ ,  $w$  तथा  $d$  हैं। पट्टी पर धनात्मक  $y$ -दिशा में एक एक समान चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  लगाया गया है। इसके कारण आवेशवाहक  $z$ -दिशा की ओर विक्षेपित होते हैं। परिणामतः सतह  $PQRS$  पर आवेशवाहकों का संचयन होता है तथा  $PQRS$  के सामने के फलक पर बराबर किन्तु विपरीत आवेश आ जाता है। एक विभांतर  $z$ -दिशा के साथ इस प्रकार विकसित होता है। आवेश वाहकों का यह संचयन तब तक जारी रहता है जब तक कि चुम्बकीय बल, विद्युत बल से संतुलित नहीं हो जाता। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तथा पट्टी की अनुप्रस्थ काट पर एक समान है।



Q.17 एक ही चालक (metallic) पदार्थ की दो अलग-अलग पट्टियों (1 तथा 2) को लें। उनकी लंबाईयाँ बराबर हैं, चौड़ाईयाँ क्रमशः  $w_1$  एवं  $w_2$  तथा मोटाईयाँ क्रमशः  $d_1$  तथा  $d_2$  हैं। दो बिन्दु  $K$  तथा  $M$   $x$ - $y$  तल के समांतर आमने-सामने के फलकों पर स्थित हैं। पट्टियों 1 तथा 2 में  $K$  तथा  $M$  के बीच विभवान्तर क्रमशः  $V_1$  तथा  $V_2$  हैं। तब उनमें बहने वाली एक दी गयी विद्युत धारा  $I$  तथा एक दी गयी चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता  $B$  के लिए सही कथन है (हैं)

- (A) यदि  $w_1 = w_2$  तथा  $d_1 = 2d_2$ , तब  $V_2 = 2V_1$   
 (B) ~~यदि  $w_1 = w_2$  तथा  $d_1 = 2d_2$ , तब  $V_2 = V_1$~~   
 (C) ~~यदि  $w_1 = 2w_2$  तथा  $d_1 = d_2$ , तब  $V_2 = 2V_1$~~   
 (D) यदि  $w_1 = 2w_2$  तथा  $d_1 = d_2$ , तब  $V_2 = V_1$


Q.18 समान आकार (लंबाई  $l$ , चौड़ाई  $w$  तथा मोटाई  $d$ ) की अलग-अलग चालक पदार्थों की दो पट्टियों (1 तथा 2) जिनके आवेशवाहकों के घनत्व क्रमशः  $n_1$  तथा  $n_2$  हैं को लें। पट्टी 1 को चुम्बकीय क्षेत्र  $B_1$  तथा पट्टी 2 को चुम्बकीय क्षेत्र  $B_2$  में रखा गया है। चुम्बकीय क्षेत्र  $B_1$  तथा  $B_2$  धनात्मक  $y$ -दिशा में हैं। तब पट्टियों 1 तथा 2 में  $K$  तथा  $M$  के बीच विभवान्तर क्रमशः  $V_1$  तथा  $V_2$  हैं। दोनों पट्टियों में बहने वाली विद्युत धारा  $I$  को समान मानते हुए सही विकल्प है (हैं)

- (A) ~~यदि  $B_1 = B_2$  तथा  $n_1 = 2n_2$  तब  $V_2 = 2V_1$  है।~~  
 (B) यदि  $B_1 = B_2$  तथा  $n_1 = 2n_2$  तब  $V_2 = V_1$  है।  
 (C) यदि  $B_1 = 2B_2$  तथा  $n_1 = n_2$  तब  $V_2 = 0.5V_1$  है।  
 (D) ~~यदि  $B_1 = 2B_2$  तथा  $n_1 = n_2$  तब  $V_2 = V_1$  है।~~

## कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

## अनुच्छेद 2

एक प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का परिवहन एक संरचना जिसमें  $n_1$  अपवर्तनांक वाले काँच का एक पतला बेलन (सिलिंडर) एक उससे कम अपवर्तनांक  $n_2$  वाले माध्यम से धिरा है द्वारा समझा जा सकता है। इस संरचना में प्रकाश का परिवहन माध्यमों  $n_1$  तथा  $n_2$  के अंतरापृष्ठ पर उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है (चित्र देखें)। प्रकाश की वे सभी किरणें जिनका इस संरचना के सिरे पर आपतन कोण  $i$  का मान एक विशिष्ट कोण  $i_m$  से कम होता है संरचना में  $n_1$  अपवर्तनांक के माध्यम में रहते हुए परिवहन कर सकती हैं। संरचना का संख्यात्मक द्वारक (numerical aperture (NA))  $\sin i_m$  द्वारा परिभाषित किया जाता है।




Q.19 दो संरचनाएँ  $S_1$  जिसमें  $n_1 = \sqrt{45}/4$  एवं  $n_2 = 3/2$  है तथा  $S_2$  जिसमें  $n_1 = 8/5$  एवं  $n_2 = 7/5$  हैं। पानी का अपवर्तनांक  $4/3$  एवं वायु का अपवर्तनांक 1 लेते हुए सही विकल्प है (हैं)

- (A)  $S_1$  की NA पानी में डुबाने पर वही है जो कि  $S_2$  को  $\frac{16}{3\sqrt{15}}$  अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर है।
- (B)  $S_1$  की NA  $\frac{6}{\sqrt{15}}$  अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर वही है जो कि  $S_2$  को पानी में डुबाने पर है। *pe*
- (C)  $S_1$  की NA उसे वायु में रखने पर वही है जो कि  $S_2$  को  $\frac{4}{\sqrt{15}}$  अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर है।
- (D)  $S_1$  की NA उसे वायु में रखने पर वही है जो कि  $S_2$  को पानी में डुबाने पर है।

Q.20 यदि बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली परन्तु अलग-अलग संख्यात्मक द्वारक  $NA_1$  तथा  $NA_2$  ( $NA_2 < NA_1$ ) वाली दो संरचनाओं को अनुदैर्घ्य रूप में एक दूसरे से जोड़ा जाता है। संयुक्त संयोजन का संख्यात्मक द्वारक है।

- (A)  $\frac{NA_1 NA_2}{NA_1 + NA_2}$       (B)  $NA_1 + NA_2$       (C)  $NA_1$       (D)  $NA_2$




प्र० १५० → १५१

## भाग II : रसायन विज्ञान

### खंड 1 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक, दोनों शामिल, के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है
  - प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें
  - अंकन योजना :
- +4 यदि उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया जाय
- 0 अन्य सभी अवस्थाओं में



Q.21 संकुल acetyl bromido dicarbonyl bis(triethylphosphine) iron(II) में Fe-C बंध (बंधों) की संख्या है


Q.22 दिये गये संकल आयनों,  $[Co(NH_2-CH_2-CH_2-NH_2)_2Cl_2]^+$ ,  $[CrCl_2(C_2O_4)]^{3-}$ ,  $[Fe(H_2O)_4(OH)_2]^+$ ,  $[Fe(NH_3)_2(CN)_4]^-$ ,  $[Co(NH_2-CH_2-CH_2-NH_2)_2(NH_3)Cl]^{2+}$  तथा  $[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]^{2+}$ , में संकुल आयन (आयनों) की संख्या जो समपक्ष-विपक्ष (*cis-trans*) समावयवता दर्शाते हैं (हैं)

Q.23 तीन मोल (moles)  $B_2H_6$  की मेथेनाल के साथ सम्पूर्ण अभिक्रिया होती है। बने हुये बोरान अन्तर्विष्ट उत्पाद के मोलों की संख्यां हैं

Q.24 एक दुर्बल अम्ल HX (0.01 M) के विलयन की मोलर चालकता (molar conductivity) एक दूसरे दुर्बल अम्ल HY (0.10 M) के विलयन की मोलर चालकता से 10 गुना कम है। यदि  $\lambda_{X^-}^0 \approx \lambda_{Y^-}^0$ , तब इनके  $pK_a$  का अन्तर,  $pK_a(HX) - pK_a(HY)$ , है (दोनों अम्लों के आयनीकरण की मात्रा (degree of ionization)  $\ll 1$ )


Q.25 एक दृढ़ दीवारों वाले बंद पात्र में 298 K पर 1 मोल  $^{238}_{92}U$  तथा 1 मोल वायु अंतर्विष्ट हैं। यदि  $^{238}_{92}U$  का  $^{206}_{82}Pb$  में पूर्ण क्षय हो, तब 298 K पर निकाय के अन्तिम दाब तथा प्रारंभिक दाब का अनुपात है

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान




Q.26 तबु जलीय  $H_2SO_4$  में संकुल डाइएकाडाइऑक्सैलेटोफेरेट (II) (diaquodioxalatoferrate(II))  $MnO_4^-$  द्वारा ऑक्सीकृत होता है। इस अभिक्रिया में  $[H^+]$  के परिवर्तन की दर तथा  $[MnO_4^-]$  के परिवर्तन की दर का अनुपात है


Q.27 उत्पाद (product) Q में हाइड्राक्सिल समूह/समूहों (hydroxyl group(s)) की संख्या है



Q.28 निम्नलिखित में बेन्जाल्डीहाइड (benzaldehyde) का उत्पाद करने वाली अभिक्रिया (अभिक्रियाओं) की संख्या है



कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान



## खंड 2 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
- अंकन योजना :
 

+4	यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
0	यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
-2	अन्य सभी अवस्थाओं में

Q.29 जल-अपघटनीय अवस्था में, शृंखला बहुलक के विरचन (preparation) तथा शृंखला समापन के लिए जिन यौगिकों का उपयोग होता है, वह क्रमानुसार, हैं





- (A)  $\text{CH}_3\text{SiCl}_3$  तथा  $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$                               (B)  $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$  तथा  $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$   
 (C)  $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$  तथा  $\text{CH}_3\text{SiCl}_3$                               (D)  $\text{SiCl}_4$  तथा  $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$

Q.30 एक धातु पृष्ठ पर  $\text{O}_2$  का अधिशोषण (adsorption) होने पर धातु से  $\text{O}_2$  को इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरण (electron transfer) होता है। इस अधिशोषण के बारे में सही विकल्प/विकल्पों हैं (हैं)

- (A)  $\text{O}_2$  का भौतिक अधिशोषण होता है।  
 (B) ऊष्मा निकलती है।  
 (C)  $\text{O}_2$  में  $\pi_{2p}^*$  का अध्यावास (occupancy) बढ़ता है।  
 (D)  $\text{O}_2$  की आबन्ध लम्बाई (bond length) बढ़ती है।






Q.31 एक मोल एकपरमाणुक वास्तविक गैस समीकरण  $p(V - b) = RT$  को सन्तुष्ट करती है, जहाँ  $b$  एक नियतांक है।

इस गैस के अंतरापरमाणुक (interatomic) विभव (potential)  $V(r)$  तथा अन्तरापरमाणुक दूरी  $r$  के बीच का सम्बन्ध है








कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान


Q.32 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद S है










Q.33 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद U है



कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान



Q.34 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद W है।



Q.35 (i)  $\text{HClO}$ , (ii)  $\text{HClO}_2$ , (iii)  $\text{HClO}_3$  तथा (iv)  $\text{HClO}_4$  के संदर्भ में सही विकल्प/विकल्पों हैं (हैं)

(A) (ii) तथा (iii) में  $\text{Cl}=\text{O}$  बंधों की संख्या जोड़कर दो है।

(B) (ii) तथा (iii) में Cl पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स (lone pairs of electrons) की संख्या जोड़ कर तीन हैं।

(C) (iv) में Cl का संकरण  $sp^3$  है।

(D) (i) से (iv) में सबसे प्रबल अम्ल (i) है।

Q.36 आयन युग्म, जहाँ दोनों आयन तनु  $\text{HCl}$  की उपस्थिति में  $\text{H}_2\text{S}$  गैस प्रवाहित करने पर अवक्षेपित (precipitate) होते हैं, है (हैं)


(A)  $\text{Ba}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$

(B)  $\text{Bi}^{3+}, \text{Fe}^{3+}$

(C)  $\text{Cu}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$

(D)  $\text{Hg}^{2+}, \text{Bi}^{3+}$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान




## खंड 3 (अधिकतम अंक : 16)





- इस खंड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
- अंकन योजना :
  - +4 यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
  - 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
  - 2 अन्य सभी अवस्थाओं में

## अनुच्छेद 1






निम्नलिखित अभिक्रियाओं में



Q.37 यौगिक X है



Q.38 मुख्य यौगिक Y है

*OR* 

कठीन काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान



## अनुच्छेद 2

स्थिर दाब पर एक ऊष्मारोधी बीकर (insulated beaker) में 100 mL HCl (1.0 M) को 100 mL NaOH (1.0 M) के साथ मिश्रित करने पर बीकर तथा उसकी अन्तर्वस्तुओं का तापमान  $5.7^{\circ}\text{C}$  बढ़ जाता है (प्रयोग 1)। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षारक की उदासीनीकरण (neutralization) ऐथेल्पी एक नियतांक ( $-57.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ ) होने के कारण इस प्रयोग का उपयोग कैलोरीमीटर स्थिरांक (calorimeter constant) को मापने में किया जा सकता है। एक दूसरे प्रयोग (प्रयोग 2) में 100 mL ऐसीटिक अम्ल (2.0 M,  $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ ) को 100 mL NaOH (1.0 M) के साथ मिश्रित करने पर (प्रयोग 1 की समरूप अवस्था में)  $5.6^{\circ}\text{C}$  तापमान वृद्धि मापित की गयी।

(सभी विलयनों की ऊष्मा धारिता  $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$  तथा सभी विलयनों का धनत्व  $1.0 \text{ g mL}^{-1}$  है)


Q.39 प्रयोग 2 से प्राप्त ऐसीटिक अम्ल की वियोजन ऐथेल्पी (dissociation enthalpy) ( $\text{kJ mol}^{-1}$  में) है

- (A) 1.0                    (B) 10.0                    (C) 24.5                    (D) 51.4

Q.40 प्रयोग 2 के पश्चात विलयन का pH है

- (A) 2.8                    (B) 4.7                    (C) 5.0                    (D) 7.0

## भाग II : रसायन विज्ञान समाप्त



### भाग III : गणित

#### खंड 1 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक, दोनों शामिल, के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है
  - प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें
  - अंकन योजना :
- +4 यदि उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया जाय
- 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

Q.41  $(1+x)(1+x^2)(1+x^3) \dots (1+x^{100})$  के विस्तार में  $x^9$  के गुणांक का मान है

Q.42 माना कि दीर्घ वृत  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$  की नाभियाँ (foci)  $(f_1, 0)$  और  $(f_2, 0)$  हैं, जहाँ  $f_1 > 0$  और  $f_2 < 0$  हैं। माना कि

$P_1$  एवं  $P_2$  दो परवलय (parabola) हैं जिनकी नाभियाँ क्रमशः  $(f_1, 0)$  एवं  $(2f_2, 0)$  हैं तथा दोनों के शीर्ष (vertex)  $(0, 0)$  हैं। माना कि  $P_1$  की स्पर्श रेखा  $T_1$  बिन्दु  $(2f_2, 0)$  से, एवं  $P_2$  की स्पर्श रेखा  $T_2$  बिन्दु  $(f_1, 0)$  से गुजरती हैं।

यदि  $T_1$  की प्रवणता (slope)  $m_1$  हो और  $T_2$  की प्रवणता  $m_2$  हो, तब  $\left( \frac{1}{m_1^2} + m_2^2 \right)$  का मान है

Q.43 माना कि दो धनात्मक पूर्णांक  $m$  और  $n$  एक (1) से बड़े हैं (greater than 1)। यदि

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\cos(\alpha^n)} - e}{\alpha^m} \right) = -\left( \frac{e}{2} \right)$$

तब  $\frac{m}{n}$  का मान है

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$$\begin{aligned}
 & (m)(1)(n)(2)(3) = (mn)^{(n)} \\
 & \frac{d}{dx} \left( \frac{e^{\cos(x^n)} - e}{x^m} \right) = \frac{e^{\cos(x^n)} - e}{x^m} \cdot \left( \frac{-\sin(x^n) \cdot nx^{n-1}}{x^m} \right) = \left( \frac{e}{2} \right) \\
 & \Rightarrow \frac{e^{\cos(x^n)} - e}{x^m} \cdot \left( \frac{-\sin(x^n) \cdot nx^{n-1}}{x^m} \right) = \left( \frac{e}{2} \right) \\
 & \Rightarrow \frac{e^{\cos(x^n)} - e}{x^m} \cdot \left( \frac{-\sin(x^n) \cdot nx^{n-1}}{x^m} \right) = \left( \frac{e}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Q.44 यदि  $\alpha = \int_0^1 (e^{9x+3\tan^{-1}x}) \left( \frac{12+9x^2}{1+x^2} \right) dx$  जहाँ  $\tan^{-1}x$  केवल मुख्य मानों (principal values) को लेता है, तब  $\left( \log_e |1+\alpha| - \frac{3\pi}{4} \right)$  का मान है

Q.45 माना कि  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  एक संतत विषम फलन है जिसका मान केवल एक बिन्दु पर ही शून्य होता है तथा  $f(1) = \frac{1}{2}$  है। माना कि सभी  $x \in [-1, 2]$  के लिए  $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$  एवं सभी  $x \in [-1, 2]$  के लिए  $G(x) = \int_{-1}^x t |f(f(t))| dt$  हैं। यदि  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{1}{14}$  है, तब  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  का मान है

Q.46 माना कि  $\mathbb{R}^3$  में,  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  और  $\vec{r}$  तीन असमतलीय सदिश हैं। माना कि सदिश  $\vec{s}$  के घटक क्रमागत सदिशों  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  एवं  $\vec{r}$  के अनुदिश क्रमशः 4, 3 और 5 हैं। यदि  $\vec{s}$  के घटक क्रमागत सदिशों  $(-\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$ ,  $(\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$  एवं  $(-\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$  के अनुदिश क्रमशः  $x$ ,  $y$  और  $z$  हैं, तब  $2x + y + z$  का मान है

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

- Q.47 किसी भी पूर्णांक  $k$  के लिए,  $\alpha_k = \cos\left(\frac{k\pi}{7}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{7}\right)$  जहाँ  $i = \sqrt{-1}$  है। तब व्यंजक  $\frac{\sum_{k=1}^{12} |\alpha_{k+1} - \alpha_k|}{\sum_{k=1}^3 |\alpha_{4k-1} - \alpha_{4k-2}|}$  का मान है

- Q.48 माना कि एक समान्तर श्रेणी (arithmetic progression (A.P.)) के सभी पद धन पूर्णांक हैं। इस समान्तर श्रेणी में यदि पहले सात (7) पदों के योग और पहले ग्यारह (11) पदों के योग का अनुपात 6 : 11 है तथा सातवाँ पद 130 और 140 के बीच में स्थित है, तब इस समान्तर श्रेणी के सार्व अन्तर (common difference) का मान है

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$$\begin{aligned} \therefore T_7 &= S_7 \quad [\text{सार्वअन्तर } d] \\ &\therefore 2a + 6d = 6 \\ 2a + (7-1)d & \\ 2a + 6d &= 6 \\ \hline 2a + 10d &= 11 \\ \text{(1)} \quad 130, \quad 140 & \\ T_m &= a + (m-1)d \\ T_m &= a + (m-1)d - 7^{\text{th}} \text{ term} \\ \int_{a_1}^{a_2} dy & \\ \int_a^{a_2} dy & \\ 2 & \\ 2 & \end{aligned}$$

## खंड 2 (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
- अंकन योजना :
  - +4 यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
  - 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
  - 2 अन्य सभी अवस्थाओं में

Q.49 माना कि  $f, g : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  संतत फलन हैं जो की अंतराल  $(-1, 2)$  में दो बार अवकलनीय (twice differentiable) है। माना कि  $f$  और  $g$  के मान, बिन्दुओं  $-1, 0$  और  $2$  पर निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं :

	$x = -1$	$x = 0$	$x = 2$
$f(x)$	3	6	0
$g(x)$	0	1	-1

यदि प्रत्येक अंतराल  $(-1, 0)$  और  $(0, 2)$  में फलन  $(f - 3g)''$  कभी भी शून्य का मान नहीं लेता है, तब सही कथन है (हैं)

- (A)  $(-1, 0) \cup (0, 2)$  में,  $f'(x) - 3g'(x) = 0$  के तीन ही हल (exactly three solutions) हैं
- (B)  $(-1, 0)$  में,  $f'(x) - 3g'(x) = 0$  के एक ही हल (exactly one solution) है
- (C)  $(0, 2)$  में,  $f'(x) - 3g'(x) = 0$  के एक ही हल (exactly one solution) है
- (D)  $f'(x) - 3g'(x) = 0$  को  $(-1, 0)$  में दो ही हल (exactly two solutions) है और  $(0, 2)$  में दो ही हल हैं

Q.50 माना कि सभी  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  के लिए,  $f(x) = 7\tan^8 x + 7\tan^6 x - 3\tan^4 x - 3\tan^2 x$  है, तब सही कथन है (हैं)

(A)  $\int_0^{\pi/4} xf(x) dx = \frac{1}{12}$

(B)  $\int_0^{\pi/4} f(x) dx = 0$

(C)  $\int_0^{\pi/4} xf(x) dx = \frac{1}{6}$

(D)  $\int_0^{\pi/4} f(x) dx = 1$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

*f(x) = 7\tan^8 x + 7\tan^6 x - 3\tan^4 x - 3\tan^2 x*

*$\int_0^{\pi/4} xf(x) dx$*


*$\int_0^{\pi/4} x(7\tan^8 x + 7\tan^6 x - 3\tan^4 x - 3\tan^2 x) dx$*

*\*\**

*$= 7x\tan^8 x + 7x\tan^6 x - 3x\tan^4 x - 3x\tan^2 x$*

*$= 7x\tan^8 x + 7x\tan^6 x - 3x\tan^4 x - 3x\tan^2 x$*

*C*



*Ans*

*25/32*

Q.51 माना कि सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए,  $f'(x) = \frac{192x^3}{2 + \sin^4 \pi x}$  एवं  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$  है। यदि  $m \leq \int_{1/2}^1 f(x) dx \leq M$ , तब  $m$  और  $M$  के सही संभव मान हैं (हैं)

- (A)  $m = 13, M = 24$       (B)  $m = \frac{1}{4}, M = \frac{1}{2}$   
 (C)  $m = -11, M = 0$       (D)  $m = 1, M = 12$

Q.52 माना कि  $S$  उन सभी शून्येतर (non-zero) वास्तविक संख्याओं  $\alpha$  का समुच्चय (set) है जिनके लिए द्विघाती समीकरण  $\alpha x^2 - x + \alpha = 0$  के दो विभिन्न वास्तविक मूल  $x_1$  और  $x_2$  असमिका  $|x_1 - x_2| < 1$  को संतुष्ट करते हैं। निम्नलिखित अंतरालों में से कौन सा (से) समुच्चय  $S$  के उपसमुच्चय है (हैं)?

- (A)  $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$       (B)  $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right)$       (C)  $\left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$       (D)  $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{2}\right)$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$$\begin{aligned} & \int_{1/2}^1 f(x) dx \quad \int_{1/2}^1 \frac{192x^3}{2 + \sin^4 \pi x} dx \\ & |u_1 - u_2| \leq 1 \quad |u_1 - u_2| < 1 \\ & u_1 - u_2 \leq 1 \quad u_1 - u_2 < 1 \\ & u_1, u_2 > 0 \quad u_1, u_2 < 0 \\ & \text{and } u_1 < u_2 \\ & u_1 = \frac{x}{\sqrt{2}} \quad u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ & u_1^2 = u_2^2 \quad u_1 < u_2 \\ & u_1 = \sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad u_2 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{2}} \\ & u_1 = \sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad u_2 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{2}} \\ & u_1 = \sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad u_2 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{2}} \\ & u_1 = \sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad u_2 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{2}} \\ & u_1 = \sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad u_2 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{2}} \end{aligned}$$

- Q.53 यदि  $\alpha = 3\sin^{-1}\left(\frac{6}{11}\right)$  और  $\beta = 3\cos^{-1}\left(\frac{4}{9}\right)$ , जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन (inverse trigonometric functions) केवल मुख्य मान (principal values) ही लेते हैं, तब सही कथन है (हैं)
- (A)  $\cos \beta > 0$       (B)  $\sin \beta < 0$       (C)  $\cos(\alpha + \beta) > 0$       (D)  $\cos \alpha < 0$

- Q.54 माना कि  $E_1$  और  $E_2$  दो दीर्घवृत हैं जिनके केन्द्र मूलबिन्दु हैं।  $E_1$  और  $E_2$  की दीर्घ अक्षायें क्रमशः  $x$ -अक्ष और  $y$ -अक्ष पर स्थित हैं। माना कि  $S : x^2 + (y - 1)^2 = 2$  एक वृत है। सरल रेखा  $x + y = 3$ , वक्रों  $S$ ,  $E_1$  और  $E_2$  को क्रमशः  $P, Q$  और  $R$  पर स्पर्श करती है। माना कि  $PQ = PR = \frac{2\sqrt{2}}{3}$  है। यदि  $e_1$  और  $e_2$  क्रमशः  $E_1$  और  $E_2$  की उत्केन्द्रता (eccentricities) हैं, तब सही कथन है (हैं)

- (A)  $e_1^2 + e_2^2 = \frac{43}{40}$       (B)  $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{10}}$       (C)  $|e_1^2 - e_2^2| = \frac{5}{8}$       (D)  $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{6}{11}\right)$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{9}\right)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \sin^{-1}\left(\frac{6}{11}\right) \quad \text{मान } \sin^{-1}\frac{6}{11} \\ \beta &= \cos^{-1}\left(\frac{4}{9}\right) \quad \text{मान } \cos^{-1}\frac{4}{9} \end{aligned}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\left(\sin^{-1}\frac{6}{11} + \cos^{-1}\frac{4}{9}\right)$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin\left(\sin^{-1}\frac{6}{11} + \cos^{-1}\frac{4}{9}\right) \\ &\approx \sin\left(60^\circ + 45^\circ\right) \\ &\approx \sin 105^\circ \\ &\approx \sin(180^\circ - 75^\circ) \\ &\approx \sin 75^\circ \\ &\approx \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &\approx \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &\approx \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &\approx \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Q.55 माना कि  $H: x^2 - y^2 = 1$  एक अतिपरवलय (hyperbola) है और  $S$  एक वृत्त है जिसका केंद्र  $N(x_2, 0)$  है। माना कि  $H$  और  $S$  एक दूसरे को बिन्दु  $P(x_1, y_1)$  पर स्पर्श करते हैं, जहाँ  $x_1 > 1$  और  $y_1 > 0$  है। बिन्दु  $P$  पर,  $H$  और  $S$  की सामान्य स्पर्श रेखा  $x$ -अक्ष को बिन्दु  $M$  पर प्रतिच्छेद करती है। यदि  $(l, m)$  त्रिभुज  $\Delta PMN$  का केंद्रक (centroid) है, तब सही कथन है (हैं)

(A)  $\frac{dl}{dx_1} = 1 - \frac{1}{3x_1^2}, x_1 > 1$

(B)  $\frac{dm}{dx_1} = \frac{x_1}{3(\sqrt{x_1^2 - 1})}, x_1 > 1$

(C)  $\frac{dl}{dx_1} = 1 + \frac{1}{3x_1^2}, x_1 > 1$

(D)  $\frac{dm}{dy_1} = \frac{1}{3}, y_1 > 0$

Q.56 निम्नलिखित में से  $a$  और  $L$  के कौन सा (से) मान समीकरण

$$\frac{\int_0^{4\pi} e^t (\sin^6 at + \cos^4 at) dt}{\int_0^{\pi} e^t (\sin^6 at + \cos^4 at) dt} = L$$

को संतुष्ट करता (करते) हैं?

(A)  $a = 2, L = \frac{e^{4\pi} - 1}{e^\pi - 1}$

(B)  $a = 2, L = \frac{e^{4\pi} + 1}{e^\pi + 1}$

(C)  $a = 4, L = \frac{e^{4\pi} - 1}{e^\pi - 1}$

(D)  $a = 4, L = \frac{e^{4\pi} + 1}{e^\pi + 1}$

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

प्रश्न 2

प्रश्न 3

प्रश्न 4

प्रश्न 5

प्रश्न 6

प्रश्न 7

प्रश्न 8

प्रश्न 9

प्रश्न 10

प्रश्न 11

प्रश्न 12

प्रश्न 13

प्रश्न 14

प्रश्न 15

प्रश्न 16

प्रश्न 17

प्रश्न 18

प्रश्न 19

प्रश्न 20

प्रश्न 21

प्रश्न 22

प्रश्न 23

प्रश्न 24

प्रश्न 25

प्रश्न 26

प्रश्न 27

प्रश्न 28

प्रश्न 29

प्रश्न 30

### खंड 3 (अधिकतम अंक : 16)

- इस खंड में दो अनुच्छेद हैं
  - प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न हैं
  - प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं। इन चार विकल्पों में एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए, सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को ओ.आर.एस. में काला करें।
  - अंकन योजना :
- +4 यदि सिर्फ सभी सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
- 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
- 2 अन्य सभी अवस्थाओं में

#### अनुच्छेद 1

माना कि बॉक्स I में  $n_1$  लाल गेंद और  $n_2$  काली गेंद हैं। माना कि बॉक्स II में  $n_3$  लाल गेंद और  $n_4$  काली गेंद हैं।

Q.57 बॉक्स I और बॉक्स II में से, यादृच्छ्या (at random) एक बॉक्स को चुना गया और इस चुने हुए बॉक्स से, यादृच्छ्या एक गेंद निकाली गयी। यह गेंद लाल रंग की पाई गयी। यदि इस लाल गेंद के बॉक्स II से निकाले जाने की प्रायिकता  $\frac{1}{3}$  है, तब निम्नलिखित में से  $n_1, n_2, n_3$  और  $n_4$  के सही संभव मान है (हैं)

- |   |  |
|---|--|
| (A) $n_1 = 3, n_2 = 3, n_3 = 5, n_4 = 15$ | (B) $n_1 = 3, n_2 = 6, n_3 = 10, n_4 = 50$ |
| (C) $n_1 = 8, n_2 = 6, n_3 = 5, n_4 = 20$ | (D) $n_1 = 6, n_2 = 12, n_3 = 5, n_4 = 20$ |

Q.58 बॉक्स I में से यादृच्छ्या (at random) एक गेंद निकाली जाती है और उसे बॉक्स II में प्रतिस्थापित (transfer) की जाती है। यदि इस प्रतिस्थापना के बाद, बॉक्स I में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता  $\frac{1}{3}$  है, तब निम्नलिखित में से  $n_1$  और  $n_2$  के सही संभव मान है (हैं)

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (A) $n_1 = 4$ और $n_2 = 6$   | (B) $n_1 = 2$ और $n_2 = 3$ |
| (C) $n_1 = 10$ और $n_2 = 20$ | (D) $n_1 = 3$ और $n_2 = 6$ |

#### कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान

## अनुच्छेद 2

माना कि  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  एक फलन है जो तीन बार अवकलनीय (thrice differentiable) है। माना कि  $F(1) = 0$ ,  $F(3) = -4$  और सभी  $x \in (1/2, 3)$  के लिए,  $F'(x) < 0$  है। माना कि सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए,  $f(x) = xF(x)$  है।

Q.59 निम्नलिखित में से सही कथन है (हैं)

- (A)  $f'(1) < 0$                                   (B)  $f(2) < 0$   
 (C) किसी भी  $x \in (1, 3)$  के लिए  $f'(x) \neq 0$                           (D) कुछ  $x \in (1, 3)$  के लिए  $f'(x) = 0$

Q.60 यदि  $\int_1^3 x^2 F'(x) dx = -12$  और  $\int_1^3 x^3 F''(x) dx = 40$  है, तब सही कथन है (हैं)

- (A)  $\cancel{9f'(3) + f'(1) - 32 = 0}$                                   (B)  $\int_1^3 f(x) dx = 12$   
 (C)  $9f'(3) - f'(1) + 32 = 0$                                   (D)  $\cancel{\int_1^3 f(x) dx = -12}$

प्रश्न पत्र समाप्त

1  $f'(1) < 0$   $f(4) \leq 0$   
 $\int_1^3 x^2 F'(x) dx = -12$   $\int_1^3 x^3 F''(x) dx = 40$   $f(1) < 0$   
 $\Rightarrow \int_1^3 x^2 F'(x) dx = -12$   $f(2) = n$   
 $\Rightarrow f(4) \leq 0$   $f(3) > 0$

2  $f(1) < 0$   
 $f(2) = n$

\*\* 5  $f(1) = n$

30/32

SPACE FOR ROUGH WORK

$$\int_1^3 x^2 p'(u) du \quad \int_{x'}^{x''} \\ 2 \int u du - \int_{x''}^{x'} \int u du,$$

$$u^2 \cancel{p(u)}$$

$$\cancel{x^2}$$

$$2x \int p'(u) du - \int \frac{d}{du} u^2 p(u) du^2 du$$

$$2x^2 p(u) - \int 2x \cdot p(u) du$$

$$2x^2 p(u) \Big|_1^3 - \int_{x_1}^{x_3} 2x \cdot p(u) du$$

$$[g_f(3) - 1 F(1)]$$

$$g_f(3) = 1 F(1)$$

2

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

19. ऊपरी मूल पृष्ठ के बुलबुलों को काले बॉल प्वाइन्ट कलम से काला करें।
20. बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
21. बुलबुलों को तभी काला करें जब आपका उत्तर निश्चित हो।
22. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका यहाँ दर्शाया गया है : ●
23. काले किये हुये बुलबुले को मिटाने का कोई तरीका नहीं है।
24. हर खण्ड के प्रारम्भ में दी गयी अंकन योजना में काले किये गये तथा काले न किये गए बुलबुलों को मूल्यांकित करने का तरीका दिया गया है।

परीक्षार्थी का नाम *Sudhir Matane*

रोल नंबर .....2044915.....

I HAVE READ ALL THE INSTRUCTIONS  
AND SHALL ABIDE BY THEM

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

I have verified the identity, name and roll number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और रोल नंबर का पूरी तरह जाँच लिया कि प्रश्न पत्र तथा ओ.आर.एस. कोड दोनों समान हैं

*Beri*  
Signature of the Candidate

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

*J. J.*  
Signature of the Invigilator

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे काम (ROUGH WORK) के लिए खाली स्थान